



# HIRA

## GODAWARI POWER & ISPAT



REF: GPIL/NSE&BSE/2022/4810

Date: 25.08.2022

To,

1. The Listing Department,  
The National Stock Exchange of India Ltd,  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), MUMBAI – 400051  
NSE Symbol: GPIL
2. The Corporate Relation Department,  
The BSE Limited, Mumbai,  
1<sup>st</sup> Floor, Rotunda Building,  
Dalal Street, MUMBAI – 400 001  
BSE Security Code: 532734

Dear Sir/Madam,

**Sub: Publication of Notice of Remote e-voting regarding Annual General Meeting (AGM) to be held on 16.09.2022.**

We have published the Notice regarding remote e-voting in Hindi and English Edition newspapers on 23.08.2022.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

Thanking You,  
Yours faithfully,

**For, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED**

**Y.C. RAO**  
**COMPANY SECRETARY**

Encl: As Above

### Godawari Power & Ispat Limited

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company  
CIN L27106CT1999PLC013756

**Registered Office and Works:** Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India

**P:** +91 771 4082333, **F:** +91 771 4082234

**Corporate Address:** Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India

**P:** +91 771 4082000, **F:** +91 771 4057601

[www.godawaripowerispat.com](http://www.godawaripowerispat.com), [www.hiragroup.com](http://www.hiragroup.com)

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Shri Kalpesh Babul Rawal (the Owner) is member of Niraj Industrial Premises Co-operative Society Limited (the said Society) holding 5 (five) fully paid up shares of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) each, bearing Distinctive Nos. 101 to 105 (both inclusive) in the share capital of the said Society and held under Share Certificate No. 015 dated 19th July, 1997 (the said Shares) and incidental to holding of the said Shares, has the right to use and occupy Industrial Unit No. 17 admeasuring 633 sq. ft. (carpet area) (the said Unit) on the ground floor of the building known as "Niraj Industrial Estate" situated at (Plot) No. 16/B, Mahal Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-1 MUMBAI
(Government of India, Ministry of Finance)
2nd Floor, Telephone Bhavan, Colaba Market, Colaba, Mumbai-400005
(5th Floor, Scindia House, Ballard Estate, Mumbai-400001)
O.A. No. 94 of 2022
The Jammu and Kashmir Bank Limited, Applicant
Venugopal N. Dhoot and Ors., Defendants

IN THE MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL NO. II
(Ministry of Finance)
3rd Floor, Telephone Bhavan, Strand Road, Colaba, Mumbai - 400005.
ORIGINAL APPLICATION NO. 343 OF 2018
BANK OF INDIA, APPLICANT
M/S. HOTKAR ENTERPRISES & ORS., DEFENDANTS

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I MUMBAI
(Government of India, Ministry of Finance)
2nd Floor, Telephone Bhavan, Colaba Market Colaba, Mumbai- 400005
(5th Floor, Scindia House, Ballard Estate, Mumbai-400 001)
O.A. No. 240 of 2019, Exh. No. 21
Central Bank of India, Applicant
V/S. Core Education & Technologies Ltd. & Ors., Defendants

माहेश्वरी प्रगति मण्डल, मुम्बई
माहेश्वरी भवन, 603 जे. एस. मार्ग, गिरगांव, मुम्बई - 400002
फोन: 022 2200 5026/27/28. Email: info@mpmmumbai.in
वार्षिक साधारण सभा की सूचना
माहेश्वरी प्रगति मण्डल-मुम्बई के सभी सदस्यगण, माहेश्वरी प्रगति मण्डल, मुम्बई की 64 वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, दि. 24 सितम्बर 2022 को सांघ 6 बजे जलगात्र शंकरशेट रोड, गिरगांव, मुम्बई में होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार होगा।

The Dharamsi Morarji Chemical Company Limited
CIN: L24110MH1919PLC000564
Regd. Off.: Prospect Chambers, 317/321, Dr. D.N.Road, Fort, Mumbai - 400 001 (India)
Web: www.dmcc.com Email: investor@dmcc.com Ph: +91 22 22048881-2-3 Fax No: +91 22852232
NOTICE OF 101st ANNUAL GENERAL MEETING, E - VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that the 101st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Dharamsi Morarji Chemical Company Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 14, 2022 at 11.30 am (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio - Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), to transact the businesses set out in the Notice of 101st AGM ("Notice"), by way of remote e-voting or e-voting at the AGM.

HIRA GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED
Regd. Office & Works: 482/Phase-I, Industrial Area, Sion, Rajpur (C), 402004
Corporate Office: Hira Arcade, Near Bus Stand, Pandri, Rajpur (C), 402004
CIN No.: L27106GT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000 Fax: 0771-4057601
Website: www.godawariipowerispat.com E mail: yarra.rao@hiragroup.com
NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING
Notice is hereby given that;
1. The 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 16th day of September, 2022 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the Ordinary and Special Business(es) as set out in the notice of AGM dated 30th July, 2022.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Shri Babulal Keshavilal Rawal (the Owner) is member of Niraj Industrial Premises Co-operative Society Limited (the said Society) holding (i) 5 (five) fully paid up shares of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) each, bearing Distinctive Nos. 46 to 50 (both inclusive) in the share capital of the said Society and held under Share Certificate No. 008 dated 19th July, 1997 (the said First Shares) and incidental to holding of the said First Shares, has the right to use and occupy Industrial Unit No. 009 admeasuring 1,006 sq. ft. (carpet area) (the said First Unit) on the ground floor of the building known as "Niraj Industrial Estate" (the said Building) and (ii) 10 (ten) fully paid up shares of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) each, bearing Distinctive Nos. 271 to 280 (both inclusive) in the share capital of the said Society and held under Share Certificate No. 41 dated 19th July, 1997 (the said Second Shares) and incidental to holding of the said Second Shares, has the right to use and occupy Industrial Unit No. 119 admeasuring 630 sq. ft. (carpet area) or thereabouts (the said Second Unit) on the 1st floor of the said Building situated at Plot No. 16/B, Mahal Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093.

Exh. - 21 Form No. [See Regulation 33 (2)]
By Regd. A / D, Dasti failing which by publication.
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I / II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL MUMBAI (DRT 3)
1st Floor, MTNL Telephone Exchange Building, Sector - 30 A, Vashi, Navi Mumbai - 400703.
NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.
RR No. 333 OF 2019
Bank of Maharashtra
Versus
Mr. Dharma Narayan & Anr.

E-Voting
1. In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM at the Company, electronically (Remote E-Voting) through e-voting platform of the RTA at https://instavote.linlinktime.co.in. (Detailed procedure and instructions for e-voting are given in the AGM Notice.
2. Remote e-voting facility for all items of business contained in the Notice of AGM shall commence from Sunday, September 11, 2022 at 9.00 a.m. and will end on Tuesday, September 13, 2022 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafter, the members shall not be allowed to vote beyond 5.00 p.m. on September 13, 2022. During this period of remote e-voting, Equity Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-Off date of September 07, 2022, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date.

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
Pali Road Branch, 324, Pinnacle Apartment, Dr. Ambedkar Road, Bandra West, Mumbai - 400050 Telephone: 91-022-26462567, E-mail: mcpali@bankofbaroda.co.in
NOTICE TO BORROWER / GUARANTOR
(UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 13 OF THE SARFAESI ACT, 2002)
TO,
M/s. Snob Diner Lounge Bar
Partners: 1) Mr. Shaabbir Hussain Abdul Rehman Shaikh 2) Mr. Pratik Pal Singh
4th Floor, Plot No. 85, Gitanee Arcade, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050
Mr. Shaabbir Hussain Abdul Rehman Shaikh
Flat No. 401, 4th Floor, C Wing, Highland Court, Opp. Bandra Reclamation & Fish Market, Bazar Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.
Mr. Pratik Pal Singh
Flat No. 303, 3rd Floor, Hicones Heights, Plot No. 108, TPS-3, 24th Road, Opp. St. Theresa Church, Bandra (W), Mumbai - 400050.
Dear Sirs,
Re: Credit facilities with our Pali Road Branch
We refer to letter no. AMB/AGM/206500/18/2018-19 dated 11-07-2018 conveying details of credit facilities and the terms of sanction. Pursuant to the above sanction, you have availed and started utilizing the credit facilities after providing security for the same, as hereinafter stated. The present outstanding in various loan/credit facility accounts and the security interests created for such liability are as under:

Marine Electricals
MARINE ELECTRICALS (INDIA) LIMITED
CIN: L31907MH2007PLC176443
Registered Office: B/1, Udyog Sadan No.3, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400093, Maharashtra
Tel.: +91 22 4033 4300; Fax: +91 22 2836 4045
Website: www.marineelectricals.com; Email ID: cs@marineelectricals.com
PUBLIC NOTICE FOR ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN RESPECT OF INFORMATION REGARDING 15th ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of Marine Electricals (India) Limited (the "Company") is to be held on Monday, 19th September, 2022 at 11:30 A.M. (I.S.T.) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/PT/2022/62 dated May 13, 2022 (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), AGM of the Company is permitted to be held through VC / OAVM without physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set forth in the Notice of AGM.
The Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 along with the Notice convening the 15th Annual General Meeting will also be available on the website of the Company at https://www.marineelectricals.com/annual-report.html and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. i.e. www.nseindia.com, respectively as well as on the website of the E-voting platform provider viz. https://evoting.nsdl.com.
Manner for registering email addresses:
The Annual Report of the Company for the year ended 31st March, 2022 including the financial statements for the said year ("Annual Report"), along with Notice of the AGM shall be sent only by email, in accordance with the circulars, to all those members, whose email address are registered with the Company or with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited, ("RTA") or with their respective Depository Participants (DPs) as on cut off date for sending Annual Report i.e. August 19, 2022. As per the SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of AGM and Integrated Annual Report will be sent to any Member. Members who hold the shares of the Company in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company by sending an email to investor@bigshareonline.com or cs@marineelectricals.com.
Manner of casting vote through e-voting:
Pursuant to section 108 of the Act and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic/remote-voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) during the meeting as per following procedure:
a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by sending email to cs@marineelectricals.com.
b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to your respective depository participants or by sending email to investor@bigshareonline.com.
c) Alternatively members may send an email request to e-voting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in point (1) or (2) as the case may be.
d) In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.
Book Closure:
In terms of Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we write to inform you that the Register of Members of Marine Electricals (India) Limited will remain closed on Tuesday, 13th September, 2022 to Monday, 19th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 15th Annual General Meeting (AGM) of the Company.
The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means for the purpose of Annual General Meeting shall be Monday, 12th September, 2022. The E-voting period shall begin on Thursday, 15th September, 2022 at 9:00 A.M. and ends on Sunday, 18th September at 5:00 P.M.
The facility for e-voting shall be made available during AGM and those members who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting systems at the AGM. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
For the process and manner of e-voting (both remote e-voting and voting at the time of AGM) and also for attending the 15th AGM through VC or OAVM, Members may go through the instructions mentioned in the AGM Notice or visit NSDL's website https://evoting.nsdl.com and in case of queries email to evoting@nsdl.co.in.
For Marine Electricals (India) Limited
Sd/-
Vinay Uchil
Chairman and Executive Director
DIN:01276871
Date : 23rd August, 2022
Place: Mumbai

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)
Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued under Section dated 21.03.2022 calling upon the Borrowers SANJU ASARAM SALVE AND KAVITA SANJU SALVE to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 1,00,685.48 (Rupees One Lakh Six Hundred Eighty Five and Paise Forty Eight Only) against Loan Account No. HHEKAL00309490 as on 14.03.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.
The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.08.2022.
The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 1,00,685.48 (Rupees One Lakh Six Hundred Eighty Five and Paise Forty Eight Only) as on 14.03.2022 and interest thereon.
The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
604/B, ON 6TH FLOOR, IN 'B' WING, AREA ADMEASURING 415 SQ. FT., CARPET IN THE BUILDING KNOWN AS 'AASHA EVERSHINE', ON LAND BEARING OLD SY. NO. 56/35A-56/35-D, 35M, NEW SY. NO. 56/35A, 56/35B, 56/35C, 35 D/2A, AT VILLAGE BALLYANI TALUKA KALYAN, VAISHNOVMATA MANDIR, TITAWALA (E), THANE, MAHARASHTRA-421605.
Sd/-
Authorised Officer
Date : 18.08.2022
Place: THANE
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

For The Dharamsi Morarji Chemical Company Limited
Sd/-
Omkar Mhamunkar
(Company Secretary)
Date : August 22, 2022
Place : Mumbai

PUBLIC NOTICE
Notice is here by given that Mr Dhaneish Mansukhli Amera And Others are the owners and possession holders of 1 and Bearing 1) Survey No. - 132, Hissa No - 1, area adm. 10 Guntha out of the Total Land 2) Survey No. - 133, Hissa No - 1, area adm. 10 Guntha out of the Total Land 3) Survey No. - 134, Hissa No - 1E, area adm. 10 Guntha out of the Total Land of Village - Rajawali, Taluka - Vasai, District - Palghar, and the Owners are intend to give the said Land for the Development purpose.
Hence any party/Person/s having any Objection/Claim/Right should come with undersign proof in writing to the following address within the 14 days of Publication of this notice in news paper.
Sd/-
Adv. Tushar R Patil
Add - B/16, Ish Kripa Building, Mulgaon Taluka - Vasai, District - Palghar 401201.

नगर पालिक निगम, रस्ताम (म.प्र.) 457001
ई-निविदा आमंत्रण
रस्ताम, दिनांक 01.08.2022
नगर पालिक निगम रस्ताम द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाइट https://mplenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-
क्र. ऑनलाईन निविदा क्र. कार्य का विवरण अनुमानित लागत घरेलू रशि निविदा प्रत्युत्पन्न रशि समय सीमा
01 214321 मुख्यमंत्री शहरी आवासन विकास योजना (तृतीय चरण अंतर्गत) अमृत सारणी के अंतर्गत से गवर्ली गवर्ली समग्र मंदिर तक कोरटेन गवर्ली समग्र मंदिर से बाऊन बाव ररेपेड तक दू. सेम निर्माण कार्य। (एरररररर अमृत)
1- उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भूतगत कर, कर्य किये जा सकते हैं। निविदा कर्य तक प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है :-
Publish Date : 02-08-2022 16:00 Pn Bid Meeting Date : 10-08-2022 15:30
Document Download/Sale Start Date: 02-08-2022 16:30 Bid Submission End Date : 31-08-2022 15:30
Bid Submission Start Date : 02-08-2022 17:00 Bid Opening Date : 01-09-2022 15:30
कर्मचालन कर्य
नगर पालिक निगम, रस्ताम

Table with 5 columns: Nature and Type of facility, Limit (Rs. In Lacs), Rate of interest, O/s as on 12-10-2021 (inclusive of interest up to 30-06-2021), and Security agreement brief description of securities (please mention the details of security agreements and details of mortgaged property including total area and boundaries).
Rows include: Overdraft (47.00, 10.40%, Rs. 44,56,235.29), Funded Interest Term Loan (FTL) (3.74, 7.65%, Rs. 3,39,013.00), Total (50.74, -, Rs. 47,95,248.29).

Place : Mumbai
Date : 13.10.2021
Yours faithfully,
Sd/-
Mr. Dinesh Pratap
Chief Manager
Bank of Baroda
Pali Road, Bandra (W) Mumbai

# य साभाग्य यादव समाज का मिला हः रजना

प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को समस्त क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं, यह दिन यादव समाज के लिए विशेष दिन है क्योंकि भगवान विष्णु ने यादव कुल में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जगत राम यादव ने समाज

की विकास एवं संरचना पर विस्तृत चर्चा किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य जयंती केशव साहू ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बधाई दिए।

इस अवसर पर जनपद सदस्य जागेश्वरी राकेश साहू, शहर मण्डल महिला मोर्चा अध्यक्ष रितिका यादव, सरपंच सीताराम धुव,

उपसरपंच जितेंद्र यादव, बसंत साहू ग्राम विकास समिति अध्यक्ष, ईश्वर देवांगन, विजय देवांगन, होमन लाल यादव यादव समाज

अध्यक्ष, दुष्यंत यादव, दिलीप यादव, हेमू यादव सहित यादव समाज के पदाधिकारी, समाजिक गण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

## एस्पायर होम फाइनैस कापोरेशन लिमिटेड

वाल टावर, रहीमतुल्ला सयानी रोड, एस्टाट डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुम्बई-400025  
सीआईएन :- यू65923एएमएच2013पीएलसी248741

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)**  
एस्पायर लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के अधीन और 1) के अनुपालन में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त क खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार / रो से प्रत्येक खाते के सामने वर्णित वर्णित तिथि/ओं की प्रतिलिपि को 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।  
जद्वारा कर्जदार/रो तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित

| सूचना की तिथि एवं राशि                | कब्जा लेने की तिथि | बैंक सम्पत्ति/यों का वर्णन   |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| 20-12-2021<br>बस्तो रु.<br>6,87,876/- | 18-08-2022         | प्लॉट नंबर 04, खसरा नंबर 614, पी एच नंबर 08, आरएनएम मिलाई-3, ग्राम संकरा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 |

हस्ता/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
(एस्पायर होम फाइनैस कापोरेशन लिमिटेड)

## सांकेतिक कब्जा सूचना

नयः आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्द्रा-कुर्ना कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई-400051  
यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जे.बी. नगर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059  
तलयः स्काई पार्क, पू. तल, सूट नंबर 1, निक्ट कनाल रोड, रायपुर-492001

नैस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा त और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों, जिसमें नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना को प्राप्त की तिथि से 60 दिन के

प्रा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ त उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे दी गई तिथियों को प्राप्त कर लिया ग को एतद्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

| सम्पत्ति का विवरण/कब्जा की तिथि   | मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रु.) | शाखा का नाम |
|---|--|-------------|
| मौजा सिकोला वाई नंबर 19, पीएच नंबर 17/08, आरआईसी दुर्ग, दुर्ग, मध्य प्रदेश-491001, चौहददी - उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : अन्य की भूमि, पूरव : रोड, पश्चिम : रोड / कब्जा की तिथि - 18-08-2022  | 10-05-2022<br>रु. 7,73,814/-                 | रायपुर-बी   |
| मौजा सिकोला वाई नंबर 19, पीएच नंबर 17/08, आरआईसी दुर्ग, दुर्ग, मध्य प्रदेश-491001, चौहददी - उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : अन्य की भूमि, पूरव : रोड, पश्चिम : रोड / कब्जा की तिथि - 18-08-2022  | 10-05-2022<br>रु. 1,63,670/-                 | रायपुर-बी   |
| वाई नंबर 9, कोहका पुरानी बस्ती वाई पीएचएन 14 19, आरएनएम दुर्ग 1, वाई नंबर 9, आरय नगर कोहका भिलाई कोहका भिलाई दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़, चौहददी - उत्तर : खुली भूमि, दक्षिण : रोड, पूरव : विक्रेता की बाकी भूमि, पश्चिम : रोड / कब्जा की तिथि - 18-08-2022 | 12-05-2022<br>रु. 8,56,590/-                 | रायपुर-बी   |
| वाई नंबर 9, कोहका पुरानी बस्ती वाई पीएचएन 14 19, आरएनएम दुर्ग 1, वाई नंबर 9, आरय नगर कोहका भिलाई कोहका भिलाई दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़, चौहददी - उत्तर : खुली भूमि, दक्षिण : रोड, पूरव : विक्रेता की बाकी भूमि, पश्चिम : रोड / कब्जा की तिथि - 18-08-2022 | 12-05-2022<br>रु. 10,56,253/-                | रायपुर-बी   |

जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रो तथा/अथवा उनके गारंटों (जैसा लागू है) को उक्त बकाया राशि का भुगतान इस भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल होने की स्थिति में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और म, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कार्यावाही की जाएगी।  
प्राधिकृत अधिकारी  
आईसीआईसीआई होम फाइनैस कम्पनी लिमिटेड

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदागांव (छ.ग.)

क. 845/निविदा/मैनुअल/लोक-11/2022-23 राजनांदागांव, दिनांक 17/08/2022  
निविदा सूचना  
नगर पालिक निगम, राजनांदागांव द्वारा निम्न कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है -

| क्र. | कार्य का नाम   | प्रान्कलन राशि लाख में | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि |
|------|--|------------------------|------------------------------------|
| 1    | पार्षद निधि योजनांतर्गत वाई क. 42 में चबूतरा का निर्माण कार्य                      | 1.98                   | 06/09/2022                         |
| 2    | पार्षद निधि योजनांतर्गत वाई क. 37 में स्थित सामुदायिक भवन में शेड का निर्माण कार्य | 8.12                   | 06/09/2022                         |
| 3    | पार्षद निधि योजनांतर्गत वाई क. 14 बलरामदास में चबूतरा निर्माण कार्य                | 1.98                   | 06/09/2022                         |

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा से संबंधित सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा, विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदागांव के (लोक कर्म शाखा) एवं वेबसाइट [www.mcrgn.com](http://www.mcrgn.com) & <http://www.uad.cg.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम, राजनांदागांव

**HIRA** गोदावरी पावर एण्ड इस्पॉट लिमिटेड  
GODAWARI POWER & ISPAT  
सीआईएन: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601, वेबसाइट: [www.godawaripowerispot.com](http://www.godawaripowerispot.com) ईमेल: [yarra.rao@hiraigroup.com](mailto:yarra.rao@hiraigroup.com)

## 23 वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस, ई वोटिंग सूचना

- कंपनी की 23 वीं वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम) शुक्रवार, 18 सितंबर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विडुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, जो की नेशनल सिक्कोरिटीज डिवाइजिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, एजीएम के नोटिस दिनांक 30 जुलाई, 2022 में निर्धारित सामान्य और विशेष कार्यों को कार्यान्वित किया जाना है।
- कंपनी की ए.जी.एम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट- 2021-22 के लिए, कंपनी की वेबसाइट [www.godawaripowerispot.com](http://www.godawaripowerispot.com), स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) और एनएसडीएल ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- निर्णायक तिथि 09 सितंबर, 2022 को जिन अंशधारकों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मतदान की सूचना प्रदान की गई है, वह नेशनल सिक्कोरिटीज डिवाइजिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (अ) एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है (ब) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया मंगलवार, 13 सितंबर, 2022 प्रातः 09:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और बुधवार 15 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (स) कंपनी एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्रदान करेगी।
- यदि कोई व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण (29 जुलाई, 2022) के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट ऑफ डेट (09 सितंबर, 2022) पर शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपने डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या कोलियो नं के साथ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) और [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) और [yarra.rao@hiraigroup.com](mailto:yarra.rao@hiraigroup.com) पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिवाइजिटी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ए.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
- सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकते हैं किंतु उक्त सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- सदस्यों से अनुरोध है कि यह मतदान की प्रक्रिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से सभा में शामिल होने के लिए ए.जी.एम के नोटिस दिनांक 30 जुलाई, 2022 एवं एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर सामान्यतः पूरे जाने वाले प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करें।
- मतदान की प्रक्रिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडुअल मीन्स (ओएवीएम) से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या/ शिकायतों के मामले में लॉगिन आदि से संबंधित (अ) सदस्य जिनका डीनेट खाता एनएसडीएल के साथ है वे हेल्पडेस्क [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) और टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800-22-4430 में संपर्क कर सकते हैं। (ब) सदस्य जिनका डीनेट खाता सीडीएसएल के साथ है वे [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर संपर्क कर सकते हैं। (स) सदस्य भेजे या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: रायपुर हस्ता./-  
दिनांक: 22.08.2022 वाय.सी.राव., कंपनी सचिव